

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली  
हौज खास, नई दिल्ली -110016  
(औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास इकाई)  
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY DELHI  
Hauz Khas, New Delhi-110016  
(Industrial Research & Development Unit)

No. IITD/IRD/RS00008N/519705

Dated:28/05/2026

Advertisement No.: IITD/IRD/131/2026

Applications from Indian nationals are invited for Project Appointment under the following project. Appointment shall be on contractual basis with consolidated pay, renewable yearly or upto the duration of the project, whichever is earlier. निम्नलिखित परियोजना के तहत भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अपॉइंटमेंट, अनुबंधित आधार पर समेकित वेतन, नवीकरणीय वार्षिक या परियोजना की अवधि तक, जो भी पहले हो, के साथ होगा.

Title of the Project	Antimicrobial (antibacterial, antifungal and antiviral) Poly-vinyl chloride (PVC) wall panels for hospitals and clinics (Sub-project under Main CoE - RP04898). (RS00008N)	
Funding Agency	Wadhvani Innovation Network, Wadhvani Foundation, New Delhi	
Name of the Project Investigator	Prof. Ashwini K. Agrawal [email ID: apply@smiita-iitd.com]	
Deptt./Centre	Department of Textile & Fibre Engineering	
Duration of the Project	Upto: 15/01/2028	
Post (s)	Consolidated fellowship / Pay-slab	Qualifications
Principal Project Scientist - (1)	Rs. 75,600 - 77,870 - 80,210 - 82,620 - 85,100 - 87,650 - 90,280 - 92,900 - 95,780 - 98,650 - 1,01,610/- p.m. plus 27% HRA	<b>Qualifications:</b> PhD in Chemistry/Nanotechnology/ Textiles/ Fiber Science from a recognized institute with at least 3 years of post-PhD experience in chemical synthesis, polymer processing, and biotechnology. Desirable Skills- Hands-on experience in the formulation of anti-microbial compounds and polymer processing, microbial testing. Knowledge of relevant standards, compliance, and quality management system(QMS) for the medical devices.

The posts may be downgraded as per discretion of the Selection Committee if none of the candidate is found suitable for the post.

The candidates who are interested to apply for the above post should download by clicking Form No. IRD/REC-4 from the IRD Website (<http://ird.iitd.ac.in/rec>) of IIT Delhi and submit the duly filled form with complete information regarding educational qualifications indicating percentage of marks/division, details of work experience etc. by e-mail with advertisement No. on the subject line to Prof. Ashwini K. Agrawal at email id: [apply@smiita-iitd.com](mailto:apply@smiita-iitd.com)

IT Delhi reserves the right to fix higher criteria for short-listing of eligible candidates from those satisfying advertised qualification and requirement of the project post and their name will be displayed on web link (<http://ird.iitd.ac.in/shortlisted>) alongwith the online interview details. Only short-listed candidates will be informed for online interview. In case any clarification is required on eligibility regarding the above post, the candidate may contact to Prof. Ashwini K. Agrawal at email id: [apply@smiita-iitd.com](mailto:apply@smiita-iitd.com)

5% relaxation of marks may be granted to the SC/ST Candidates. In case of selection of a retired/superannuated government employee, his/her salary will be fixed as per prevailing IRD norms. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को अंकों की 5% छूट दी जा सकती है. एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के चयन के मामले में उसका वेतन वर्तमान आईआरडी मानदंडों के अनुसार तय किया जाएगा। The last date for submitting the completed applications by e-mail is 10/06/2026 by 5.00 p.m.

कार्यवाहक प्रमुख (आईआरडी स्थापना)

वितरण

- Head of the Deptt./Centres/Units :
- Webmaster, IRD :
- Notice Boards
- Advertisement file
- Prof. Ashwini K. Agrawal, PI, Deptt. of Textile & Fibre Engineering
- Copy to Chairperson, DRC/CRC

It is requested that the contents of the Above Advt. be brought to the notice of the staff working in your Deptt./Centre/Unit To put advertisement at IITD website.